



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261108
CG-DL-E-17022025-261108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 854]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2025/माघ 28, 1946

No. 854]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2025/MAGHA 28, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

का.आ. 858(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और, यतः केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि कर्नाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के प्राधिकृत नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14(ए) की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2024-25 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान जनहित में ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की

अनधिकृत फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पार्ट]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 858(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

AND WHEREAS the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers and flue cured virginia tobacco of unregistered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Karnataka;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Karnataka for the auctions during the crop season 2024-2025, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

का.आ. 859(अ).—केन्द्रीय सरकार, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 20 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तंबाकू बोर्ड को फसल सीजन 2024-2025 के दौरान कर्नाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू और अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की कर्नाटक राज्य में इसके नीलामी प्लेटफार्मों पर नीलामी में तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को उक्त अधिनियम के तहत सामान्य लागू सेवा प्रभारों के भुगतान पर खरीद की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पार्ट]

राजेश अग्रवाल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

S.O. 859(E).—In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at their auction platforms in the State of Karnataka for the auctions during crop season 2024-2025, the excess flue cured virginia tobacco produced by the registered growers and the unauthorised flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in the State of Karnataka on the payment of normal applicable service charges under the said Act.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

RAJESH AGRAWAL, Addl. Secy.